



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

02 चोरी की मोटरसाइकिलों समेत दो शातिर चोर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद में चोरी/नकबजनी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए घटनाओं को रोकने व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 03.02.2021 को थाना हरगांव पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त ऋषभ उर्फ नेता पुत्र आनन्द प्रकाश निवासी ग्राम हुमायूँपुर थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर एवम् थाना सकरन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त सोमू उर्फ सोनू पुत्र रामप्रकाश नि0 हरकीबेहड़ थाना तंबौर सीतापुर सहित कुल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिनके पास से चोरी गयी दो मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी। विवरण निम्न है-

थाना हरगांव पुलिस

थाना हरगांव पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त ऋषभ उर्फ नेता पुत्र आनन्द प्रकाश निवासी ग्राम हुमायूँपुर थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर को भैरमपुर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से हीरो होण्डा स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल नं0 UP 34 R 8573 रंग नीला काला बरामद हुई है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 29.01.2021 को उक्त मोटरसाइकिल उसने जिला अस्पताल सीतापुर के पास से चोरी की थी जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 68/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त- ऋषभ उर्फ नेता पुत्र आनन्द प्रकाश निवासी ग्राम हुमायूँपुर थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 68/21 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली नगर सीतापुर
2. मु0अ0सं0 76/21 धारा 41/411 भादवि थाना हरगांव सीतापुर

बरामदगी- मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्पेलेण्डर प्लस नं0 UP 34 R 8573 रंग नीला काला

पुलिस टीम-

1. उपनिरीक्षक श्री कृष्ण कुमार सिंह
2. हे0का0 प्रदीप कुमार
3. का0 मनोज कुमार
4. का0 आकाश कुमार



थाना सकरन

थाना सकरन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त सोमू उर्फ सोनू पुत्र रामप्रकाश नि० हरकीबेहड़ थाना तंबौर सीतापुर को कस्बा सकरन यज्ञशाला के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से चोरी गयी आई-स्मार्ट मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उक्त मोटरसाइकिल उसने लखनऊ से चोरी की थी। अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त- सोमू उर्फ सोनू पुत्र रामप्रकाश नि० हरकीबेहड़ थाना तंबौर सीतापुर

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 29/21 धारा 41/411 भादवि थाना सकरन सीतापुर

बरामदगी- हीरो आई स्मार्ट मोटरसाइकिल नं० UP 32 FR 2019

पुलिस टीम-

1. व० उपनिरीक्षक श्री पंकज कुमार
2. हे०का० रवींद्र प्रताप सिंह
3. का० मुकेश यादव

